



सत्र 2024-25 हेतु नव प्रवेशित छात्राओं के कक्ष आवंटन की द्वितीय सूची

विश्वविद्यालय के महिला-छात्रावास में शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्ष आवंटन हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्राओं के प्राप्त आवेदन-पत्र के अनुसार पाठ्यक्रमानुसार प्रोविजनल सूची संलग्न विवरण अनुसार निर्गत की जा रही है।

अतः प्रोविजनल सूची की छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वेबसाइट पर अंकित छात्रावास आवंटन आवेदन-पत्र की प्रति निकाल कर उसे पूर्ण रूप से भरकर समस्त प्रमाण-पत्रों सहित लाना अनिवार्य है (छात्रावास आवंटन आवेदन-पत्र के प्रारूप की प्रति संलग्न है)।

काउंसलिंग समय-सारणी

क्र० सं०	पाठ्यक्रम	तिथि	समय
1	समस्त पाठ्यक्रमों की दिव्यांग छात्राएं	20.11.2024 एवं 21.11.2024	प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक

- संलग्नक:- 1. नवप्रवेशित छात्राओं की प्रोविजनल सूची।  
2. छात्रावास आवंटन आवेदन-पत्र का प्रारूप।

// आवश्यक निर्देश //

- अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन छात्रावास आवेदन-पत्र के प्रिंटआउट के साथ ही समस्त अभिलेख (अंकतालिका/आधार/निवास प्रमाण/विकलांगता प्रमाण-पत्र/सरकारी/चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो, माता पिता का फोटो, छात्र एवं अभिभावक का आधार कार्ड, नवीनतम कोर्स के प्रवेश शुल्क की छायाप्रति आदि) एवं निर्धारित शुल्क के साथ अपने अभिभावक के साथ छात्रावास में उपस्थित होंगे। अन्यथा आवेदन-पत्र अपूर्ण रहने की स्थिति में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- छात्रावास में प्रवेश लेने हेतु अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि उनके द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसी स्थिति में बिना सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये किसी भी स्तर पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के साथ तत्काल प्रभाव से आवंटित कक्ष निरस्त करने के साथ ही उनके द्वारा जमा किया गया शुल्क इत्यादि जब्त कर लिया जायेगा।

(डॉ० पांचाली सिंह)  
(अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट)  
महिला छात्रावास

(डॉ० कविता त्यागी)  
(अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट)  
महिला छात्रावास

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- वैयक्तिक सहायक, कुलपति को मा० कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
- कुलसचिव, विश्वविद्यालय।
- वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
- समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय।
- कुलानुशासक, विश्वविद्यालय।
- सिस्टम एनालिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(डॉ० पांचाली सिंह)  
(अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट)  
महिला छात्रावास

(डॉ० कविता त्यागी)  
(अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट)  
महिला छात्रावास

DR. SHAKUNTALA MISHRA NATIONAL REHABILITATION UNIVERSITY, LUCKNOW

DIVYANG NEW STUDENTS HOSTEL ALLOTMENT SECOND LIST (2024-25)

SI. NO.	NAME	FATHER NAME	COURSE NAME	DISABILITY
1	Deepa patel	Jitendra Kumar	BA	Visually Impaired
2	Sadhna prajapati	Harishankar	BA	Visually Impaired
3	Muskan Katheriya	LATE Sunil Katheriya	BA	Visually Impaired
4	ARTI	BHARATLAL	BA	Hearing Impaired
5	KANCHAN GAUTAM	RAM KUMAR	BA	Locomotor Disability
6	RISHIKA CHAURASIYA	SATYA PRAKASH CHAURASIYA	PDCD	Hearing Impaired
7	Neha tripathi	Malay ramsamujh tripathi	PDCD	Hearing Impaired
8	Nisha khanam	Abdul Waheed Khan	D. Ed	Visually Impaired
9	Harshita Sachan	Suresh Kumar Sachan	B. Ed	Hearing Impaired
10	Shivani Sharma	Diwakar Sharma	B. Ed	Locomotor Disability
11	PRANAMYA MISHRA	UMESH KUMAR MISRA	B. Ed	Hearing Impaired
12	Vidya Gupta	Ganesh Gupta	MBA	Locomotor Disability
13	Shikha Verma	Ram vinod	M.A.	Locomotor Disability

*Kampan*  
19/11/24

*[Signature]*

*[Signature]*  
19/11/2024

*[Signature]*  
19/11/24

क्रमांक S. No. ....



सत्र Session 20.....- 20.....

छात्रावास आवंटन आवेदन-पत्र  
**Application Form for Hostel Allotment**  
डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ  
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

पासपोर्ट आकार  
का फोटो चस्पा  
करें Paste  
here

**कार्यालय द्वारा भरा जायेगा To be filled by the Office**

Allotted Room No. (आवंटित कक्ष संख्या) ..... Fee Details

(शुल्क विवरण): .....

Date दिनांक: ..... Challan No. चालान संख्या:

**छात्रावास विद्यार्थियों हेतु For the Students of Hostel**

विगत वर्ष छात्रावास आवंटन आवेदन पत्र संख्या Application Form No. of Last Year Allotted:

Name of the Student (in capital letters): .....

विद्यार्थी का नाम (हिंदी में): .....

Mob.no of the Student.....

पाठ्यक्रम (जिसमें नामांकित हैं) Course (in which, enrolled): .....  
सेमेस्टर/वर्ष Semester/Year .....

प्रवेश शुल्क रसीद सं0/दिनांक Admission Receipt No. & Date: ..... अंतिम परीक्षा में  
प्राप्तियों का प्रतिशत Percentage of the Last Examination: ....

स्थानीय संरक्षक का नाम Local Guardian's Name: ..... विद्यार्थी से  
सम्बन्ध Relation with students .....

स्थानीय संरक्षक का पता Address of the Local Guardian:

..... संरक्षक का मोबाइल न०  
Mob. No. of the Local Guardian .....

**Declaration by the Student**

I ..... hereby declare that the particulars furnished by me (specially  
duration of hostel allotment) in this registration form are true to the best of my knowledge and belief. In  
case any information is found to be incorrect, University shall have full right to punish/rusticate me.

मैं..... शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में जो जानकारी दी गई है  
(विशेषकर विगत वर्षों में छात्रावास में रहने की अवधि), मेरे अनुसार सत्य एवं विश्वसनीय है। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई जानकारी असत्य  
पाई जाती है, तो विश्वविद्यालय को मुझे दण्डित/निष्कासित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक Date:.....

विद्यार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
Signature/Thumb Impression of the Student

## Undertaking (I)

### प्रतिबद्धता (I)

#### I understand that:

1. Consumption and possession of all types of alcohol, cigarettes, narcotics and other drugs would automatically debar the student from residing in the University hostel and campus.
2. It is required to maintain the decorum in the hostel premises. Misbehavior with fellow students/hostel staff/Warden (s) will lead to rustication from the hostel.
3. Hostel administration reserves the right to allow or not to allow to any student in the hostel.
4. I shall abide by all the rules and regulations prescribed by the University and amended time to time. I shall vacate the hostel room within four days from the last date of examination at the end of even semester.

#### मैं समझता/समझती हूँ कि:

1. सभी प्रकार के अल्कोहल, सिगरेट, नॉरकोटिक्स एवं अन्य नशीले पदार्थों का उपभोग करने एवं उनको रखने से विद्यार्थी को स्वतः विश्वविद्यालय छात्रावास एवं परिसर से निष्कासित कर दिया जायेगा।
2. छात्रावास परिसर में मर्यादा बनाए रखना अपेक्षित होगा। सहपाठियों/हॉस्टल स्टाफ/वार्डन के साथ दुर्व्यवहार किये जाने पर छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।
3. किसी विद्यार्थी को छात्रावास में अनुमति प्रदान करने अथवा न प्रदान करने का अधिकार छात्रावास प्रशासन के पास आरक्षित होगा।
4. मैं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों और विनियमों तथा समय-समय पर संशोधनों का पालन कर सहयोग करूंगा। मैं सम-सेमेस्टर की सत्रांत परीक्षा की अंतिम तिथि से चार दिनों के भीतर छात्रावास का कमरा खाली कर दूंगा।

Signature of Parent/Guardian  
माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर  
Name (नाम): \_\_\_\_\_

Signature of the Student  
विद्यार्थी के हस्ताक्षर  
Name (नाम): \_\_\_\_\_

### Anti Ragging Declaration/Undertaking (II)

#### एन्टी रैगिंग घोषणा/प्रतिबद्धता (II)

I, \_\_\_\_\_ Son/Daughter of \_\_\_\_\_ student of (course) \_\_\_\_\_ Semester \_\_\_\_\_ Year \_\_\_\_\_ Session \_\_\_\_\_ do hereby solemnly affirm and undertake that I shall not indulge in any form of Ragging and that shall make determine efforts to eradicate ragging totally.

I am fully aware that ragging of junior or other fellow students through physical or mental harassment is a heinous social evil and cognizable offence, that the barbarous act of ragging may disturb the mental balance of the students besides causing physical harm, that this may result into damaging consequence and adversely affect his career permanently and that serious cognizance shall be taken if I am found involved in ragging or of any complaint in this regard which may lead to my rustication form this University and also lodging a complaint with the police for taking action against me under the prevailing rules.

Further, I undertake to follow the hostel rules as well as the directives given by hostel administration and I shall be liable for disciplinary action, including expulsion from hostel, if I am found violating the same.

In the event of my in-eligibility to continue in the class for which I have registered, I shall vacant the Hostel immediately.

मैं, \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_ विद्यार्थी पाठ्यक्रम \_\_\_\_\_ सेमेस्टर \_\_\_\_\_ सत्र \_\_\_\_\_ शपथपूर्वक प्रतिबद्ध हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लूँगा/लूँगी तथा रैगिंग को पूर्णतया समाप्त करने हेतु निश्चित प्रयास करूँगा/करूँगी।

मैं पूर्णतया अवगत हूँ कि कनिष्ठ अथवा अन्य सहपाठियों को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित करना एक जघन्य सामाजिक बुराई एवं संज्ञेय अपराध है, तथा रैगिंग के क्रूरतापूर्ण कृत्य से विद्यार्थी का मानसिक सन्तुलन बिगड़ने के साथ उसे शारीरिक क्षति पहुँच सकती है, तथा इसके घातक परिणाम हो सकते हैं एवं उसका कैरियर स्थायी रूप में प्रभावित हो सकता है और यदि मैं रैगिंग में संलिप्त पाया गया अथवा इससे सम्बन्धित मेरे विरुद्ध शिकायत पाई गयी तब इसका संज्ञान लेते हुए मुझे विश्वविद्यालय के छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा तथा प्रचलित नियमों के अन्तर्गत मेरे विरुद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी जायेगी।

पुनश्च, मैं छात्रावास के नियमों तथा छात्रावास प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध हूँ तथा यदि मेरे द्वारा उक्त की अवहेलना की जाती है तब मेरे विरुद्ध छात्रावास से निष्कासन सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

जिस कक्षा में मैं पंजीकृत हूँ यदि किसी कारणवश मुझे अयोग्य पाया जाता है तब मैं तत्काल छात्रावास खाली कर दूँगा/दूँगी।

Signature of Parent/Guardian  
माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर  
Name (नाम) : \_\_\_\_\_

Contact no. (सम्पर्क/दूरभाष): \_\_\_\_\_

Signature of the Student  
विद्यार्थी के हस्ताक्षर

Name (नाम): \_\_\_\_\_  
Contact no. (सम्पर्क/दूरभाष): \_\_\_\_\_

छात्र/छात्राओं एवं उनके माता-पिता द्वारा छात्रावास हेतु देय सहमति/घोषणा/शपथ-पत्र

1. विद्यार्थी का नाम.....
2. पिता का नाम.....मो0नं0.....
3. माता का नाम.....मो0नं0.....
4. ब्लॉक..... कक्ष सं0.....
5. विभाग/संकाय/कक्षा.....सेमेस्टर.....
6. दिव्यांगता.....
7. जाति.....
8. जन्म तिथि.....
9. पिता का आफिस का पता .....  
मो0नं0(आफिस).....  
माता का आफिस का पता.....  
मो0नं0(आफिस).....
10. स्थाई पता.....
11. वर्तमान का पता.....

नवीनतम पासपोर्ट  
साइज स्वप्रमाणित  
फोटो  
  
(पिता)

नवीनतम पासपोर्ट  
साइज स्वप्रमाणित  
फोटो  
  
(माता)

12. कोविड-19 की जाँच-रिपोर्ट (लखनऊ)  हाँ  नहीं
13. वि विद्यालय थर्मल स्कैनिंग की जाँच रिपोर्ट डाक्टर हस्ताक्षर दिनांक सहित

मैं, .....पुत्र/पुत्री..... विद्यार्थी  
पाठ्यक्रम ..... सेमेस्टर/वर्ष ..... सत्र ..... शपथपूर्वक  
प्रतिबद्ध/वचनबद्ध होकर बयान करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र में बिन्दु 01से 13 तक में वर्णित सभी तथ्य सत्य/सही एवं मेरी  
पूर्ण जानकारी/वि वसनीय हैं। मैं कोविड/कोरोना बीमारी से ग्रसित नहीं हूँ तथा पूर्व में भी उक्त संक्रमण से प्रभावित नहीं  
हुआ हूँ। मेरे द्वारा वि विद्यालय द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत छात्रावास, 2021-22 छात्रावास प्रवे । हेतु जारी Standard  
Operating Procedure (SOP) का अनुपालन किया जायेगा। मेरे छात्रावास में आवासित रहने के समय यदि मैं कोविड-19 एवं  
अन्य माहामारी से ग्रसित पाया जाता हूँ अथवा इस दौरान मुझे कुछ हो जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा तथा मेरे  
माता-पिता को किसी भी प्रकार कोई आपत्ति नहीं होगी। इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। किसी तथ्य के गलत पाये  
जाने पर विश्वविद्यालय एवं छात्रावास प्रशासन मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक/दण्डनात्मक कार्यवाही छात्रावास से निष्कासित करने  
के साथ-साथ परीक्षा से विरक्त कर सकता है। मैं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी दि 11-निर्देशों/गाइड  
लाइन/ तर्कों/नियमों/विनियमों का अनुपालन करूँगा/करूँगी तथा समय-समय पर संशोधनों का पालन कर सहयोग  
करूँगा/करूँगी। मैं परीक्षा की अंतिम तिथि से एक दिन बाद छात्रावास का कमरा खाली कर दूँगा/दूँगी।

विद्यार्थी के पूर्ण नाम हस्ताक्षर दिनांक सहित  
Student's Contact no. (सम्पर्क/दूरभाष): \_\_\_\_\_

पिता/अभिभावक हस्ताक्षर (सम्पर्क/दूरभाष)  
Father's Signature and Contact no. \_\_\_\_\_

माता के हस्ताक्षर (सम्पर्क/दूरभाष)  
Mother's Signature and Contact no. \_\_\_\_\_

चीफ प्रोवोस्ट/अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट  
महिला छात्रावास

नोट:- (उपरोक्त घोषणा-पत्र फॉर्मेट को वि विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर माँगी गयी सूचना अंकित/संलग्न करें।)  
(छात्रावास में आवंटन विश्वविद्यालय की छात्रावास नियमावली के अधीन रहेगी)

## Academic Details

Name of Candidate:-.....

Course:-.....

Type of Disability:-.....

Mobile Number:-.....

S.No	NAME OF COURSE/DEGREE	NAME OF BOARD/UNIVERSITY/INSTITUTE	MONTH & YEAR OF EXAMINATION		MAX MARKS/CPGA	OBTAINED MARKS/OBTAINED CGPA
			MONTH	YEAR		
1	12 <sup>TH</sup> /PDCD					
2	Graduation					
3	Diploma					
4	Post Graduation					
5	Professional					
6	Ph.D					
7	Any Other					

Dr. SHAKUNTALA MISRA NATIONAL REHABILITATION UNIVERSITY  
LUCKNOW

HOSTEL

UNDERTAKING

I ----- Ms/Mrs Son/Daughter of  
-----seeking admission in -----  
Girls/Boys Hostel Dr. Shakuntala misra National Rehabilitation University,  
Lucknow is unable to submit the following documents to Admission  
Committee at Girls/Boys Hostel at the time of counselling:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

I do hereby undertake to submit the above mentioned documents within 20  
Days Without fail.

Name:

Father;s Name:

FOR ADMISSION COMMITETEE

Date:

Signature: